



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 चैत्र 1940 (श10)
(सं0 पटना 280) पटना, मंगलवार 27 मार्च 2018

सं० एल/एच०जी०-302/2016-2408
गृह विभाग
(विशेष शाखा)

संकल्प
23 मार्च 2018

विषय:- बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के वैतनिक अराजपत्रित कर्मियों (सिपाही से निरीक्षक तक) को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों के समान एक माह का अतिरिक्त वेतन देने के संबंध में।

गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-6185, दिनांक 27.08.2015 के द्वारा बिहार पुलिस संगठन में कार्यरत अराजपत्रित कर्मियों में से सिपाहियों, हवलदारों, सहायक अवर निरीक्षकों एवं अवर निरीक्षक कोटि तक के सभी कर्मियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह के वेतन के बराबर मानदेय दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के पत्रांक-60 दिनांक 06.01.2016 बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के अराजपत्रित कर्मियों (सिपाही से निरीक्षक तक) को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों के समान एक माह का अतिरिक्त वेतन देने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

3. सम्यक विचारोपरांत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के वैतनिक अराजपत्रित कर्मियों (सिपाही से निरीक्षक तक) को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों के समान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह के वेतन के बराबर मानदेय निम्नलिखित शर्तों के साथ दिए जाने की स्वीकृति संकल्प निर्गत की तिथि से प्रदान की जाती है:-

- (i) यह सुविधा उन्हीं कर्मियों को देय होगी, जिन्होंने एक वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली होगी।
- (ii) परिगणित वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह के मूलवेतन एवं मंहगाई भत्ता को ही उस वर्ष के लिए मानदेय के रूप में स्वीकृत किया जाएगा।
- (iii) जिन्हें एक माह का मानदेय स्वीकृत किया जाएगा, उनको क्षतिपूर्ति अवकाश अनुमान्य नहीं होगा।

4. उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय उसी शीर्ष से किया जाएगा, जिससे बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के वैतनिक अराजपत्रित कर्मियों (सिपाही से निरीक्षक तक) को वेतनादि का भुगतान किया जाता है।

5. उपर्युक्त में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विमलेश कुमार झा,
सरकार के संयुक्त सचिव,।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 280-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>